



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 517 राँची, बुधवार

24 आषाढ़, 1937 (श०)

15 जुलाई, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

29 मई, 2015

संख्या- 4/न०वि०/विविध/109/2015-..1961(अनु०)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा- 3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पलामू जिलान्तर्गत मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग-'ख' को उसके आस-पास के 9 राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों यथा:- (i) निमिया (ii) बजराहा (iii) बैरिया (iv) सुदना सी.टी. (v) सुदना सी.टी., वार्ड सं.-0001 (vi) बारालोटा सी.टी. (vii) बारालोटा सी.टी., वार्ड सं.-0001 (viii) रेड़मा सी.टी. (ix) रेड़मा सी.टी., वार्ड सं.-0001 की जनसंख्या- 167305 होने के फलस्वरूप मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग-'ख' को वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करने संबंधी 'प्रारूप आदेश' निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर मेदिनीनगर नगर निगम के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, पलामू द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग-'ख' के मूल रूप में उसके आस-पास के 9 राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों (राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न) को मिलाकर वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अनुलग्नक-I

मेदिनीनगर नगर निगम का गठन

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-394, दि. 24 मार्च, 15 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग-'ख' अंतर्गत प्रस्तावित मेदिनीनगर नगर निगम में समाहित होनेवाले 09 राजस्व ग्रामों/क्षेत्रों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत है:-

A. मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग-'ख' का क्षेत्र

क्र.	स्थल का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)
1	मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग-'ख'	189	78396

B. नगर परिषद में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

1	निमिया	192	2171
2	बजराहा	192	195

3	बैरिया	197	2685
4	सुदना सी.टी.	191	14552
5	सुदना सी.टी., वार्ड सं.-0001	191	14552
6	बारालोटा सी.टी.	198	14880
7	बारालोटा सी.टी., वार्ड सं.-0001	198	14880
8	रेड़मा सी.टी.	188	12497
9	रेड़मा सी.टी., वार्ड सं.-0001	188	12497
कुल जनसंख्या:-			167305

ह/-
सचिव,
नगर विकास विभाग।
